

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमेठी

पत्रांक:स्टेनो / मान्यता / अंग्रेजी / 3305-07 / 2014-15 दिनांक 26-08

प्रबन्धक,

इन्सुल्टेड एन्ड पब्लिक स्कूल अमेठी

मुख्यालय, जनपद-अमेठी।

विषय:- विद्यालय को नर्सरी से कक्षा 08 तक की अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपको शासनादेश संख्या:419/79-6-2013-18(20)/21 लखनऊ दिनांक-08 न प्राविधानों के अंतर्गत मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 28.08.2014 में लिये गये निर्णय के क्रम को नर्सरी से कक्षा 08 तक की अंग्रेजी माध्यम की मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत अनंतिम मान्यता निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में मान्यता स्तर के पश्चात मान्यता/सम की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा(2) के उपबन्धों के प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल न जायेगा या उससे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रदान किया जायेगा।
- (5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जायेगी।
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और अध्यापक स्वयं के निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
6. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा।
7. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायीं।
8. विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 क 21) के अधीन रजि किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा ही चलाया जायेगा।
9. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन के लाभ के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
10. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्परीक्षा करायी जायेगी और उसके द्वारा प्रमाणित जायेगा कि विद्यालय द्वारा लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या छोड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के किया जायेगा। विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया कलापों के प्र भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय न रंग रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

12. विद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क, तथा कंपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
13. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंडगाई शुल्क निलाकर उतना मासिक शुल्क रखा जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इस शिक्षण शुल्क तथा मंडगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
14. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण संकेत। वैसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी विद्यालय से सूचना माँगे जाने पर आवश्यक आख्यायें एवं सूचनाएँ निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी। का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
15. वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाए। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन-पाठन न कराया जाए और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का कय हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाए न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालयों का नाम मुद्रित कराकर कय किया जाए अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याह्वित कर ली जायेगी।
16. शासनादेश में वर्णित उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक कक्षाभूभाग के प्रति छात्र संख्या के अनुरूप स्थान उपलब्ध चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र/छात्राओं का प्रवेश दिया जाए जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था है।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
18. मान्यता स्तर के शिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-1986 के प्रस्ताव-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, अध्ययन भाषा से सम्बन्धित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।
19. विद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें निःशुल्क प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेज्युटी, बीमा, पीओएफो तथा अन्य कर्मचारी कय योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
20. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्व धर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की समर्थन लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
21. प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होत तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा मान्यता आदेश निर्गत करने के लिए विद्यालय की मान्यता हेतु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों/प्रपत्रों/सूचनाओं तथा खण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या/निरीक्षण आख्या में वर्णित सूचनाओं में यदि त्रुटिपूर्ण/मिथ्या/भ्रामक/तथ्यगोप्य की किसी भी स्तर पर पायी जाती है तो आपके विद्यालय को प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका ही होगा। अग्रेतर यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा समय-समय पर शासनादेश/अधिनिर्णयों/आरओटीआई मानकों में वर्णित समस्त नियमों एवं शर्तों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करवायें।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद अमेठी

पृ० सं० पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

2. सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

SYED KHADIM ABBAS
(Manager)

Asif Parvez Naqvi
(Principal)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद अमेठी